

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 24 अगस्त 2022

प्रश्न -1

भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी जैसे प्रमुख बैडमिंटन सितारों के साथ साझेदारी की है?

- A) मास्टरकार्ड
- B) गूगल पे
- C) डिजीकैश
- D) अमेज़न पे

सही उत्तर: A

मास्टरकार्ड ने भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख बैडमिंटन सितारों लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेटी के साथ साझेदारी की है।

प्रश्न -2

निम्नलिखित में से किस राज्य में BRO स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेगा?

- A) मेघालय
- B) मणिपुर
- C) झारखंड
- D) अरुणाचल प्रदेश

सही उत्तर: D

सीमा सड़क संगठन (BRO) ने पायलट परियोजना के आधार पर अरुणाचल प्रदेश में स्टील स्लैग रोड बनाने की योजना बनाई है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 24 अगस्त 2022

प्रश्न -3

_____ ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं।

- A) ऑस्ट्रेलिया
- B) कनाडा
- C) न्यूजीलैंड
- D) US

सही उत्तर: D

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने हाल ही में 750 बिलियन डॉलर के स्वास्थ्य देखभाल, जलवायु और कर बिल पर हस्ताक्षर किए, जिसे मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम के रूप में जाना जाता है।

प्रश्न -4

भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है?

- A) अटल बिहारी वाजपेयी
- B) इंदिरा गांधी
- C) लाल बहादुर शास्त्री
- D) राजीव गांधी

सही उत्तर: D

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को "सद्भावना दिवस" के रूप में मनाई जाती है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 24 अगस्त 2022

प्रश्न -5

_____ ने अपना पहला हैकथॉन "बीमा मंथन 2022" का आयोजन किया।

- A) IRDAI
- B) NABARD
- C) RBI
- D) SEBI

सही उत्तर: A

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने हाल ही में 'बीमा मंथन 2022' नामक अपना पहला हैकथॉन 'बीमा में नवाचार' विषय के साथ आयोजित किया है।

प्रश्न -6

निम्नलिखित में से किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त किया गया है?

- A) अलकेश कुमार शर्मा
- B) अमित सिंघल
- C) सबीर भाटिया
- D) विनोद धाम

सही उत्तर: A

UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अलकेश कुमार शर्मा को इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के एक पैनल में नियुक्त किया।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 24 अगस्त 2022

प्रश्न -7

निम्नलिखित में से किसे बजाज इलेक्ट्रिकल्स के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) अनुज पोद्दार
- B) देबा घोषाल
- C) मनीष शर्मा
- D) सुनील नैयर

सही उत्तर: A

बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने कंपनी के कार्यकारी निदेशक अनुज पोद्दार को प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है।

प्रश्न -8

निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा 'विजिल आंटी' नामक एक नया अभियान शुरू किया गया था?

- A) HDFC बैंक
- B) ICICI बैंक
- C) IDBI बैंक
- D) यस बैंक

सही उत्तर: A

वित्तीय धोखेबाजों के तौर-तरीकों पर ग्राहकों को शिक्षित करने और सुरक्षित बैंकिंग आदतों पर इनपुट साझा करने के लिए, HDFC बैंक 'विजिल आंटी' नामक एक सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम लेकर आया है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 24 अगस्त 2022

प्रश्न -9

निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का शुभारंभ किया गया?

- A) अहमदाबाद
- B) भुवनेश्वर
- C) मुंबई
- D) नोएडा

सही उत्तर: C

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में मुंबई में भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन किया है।

प्रश्न -10

स्मार्ट PoS (प्वाइंट-ऑफ-सेल) उपकरणों को तैनात करने के लिए पेटीएम ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ भागीदारी की है?

- A) LG
- B) वन प्लस
- C) पैनासोनिक
- D) सैमसंग

सही उत्तर: D

डिजिटल वित्तीय सेवा फर्म पेटीएम ने घोषणा की है कि उसने स्मार्ट PoS (प्वाइंट-ऑफ-सेल) उपकरणों की सुविधा के लिए पूरे भारत में सैमसंग स्टोर्स के साथ साझेदारी की है।